

To, Date: 16.08.2024

Department of Corporate Services/Listing BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort Mumbai-400001

Scrip Code: 539922 Symbol: RGIL Manager Listing
Ahmedabad Stock Exchange
A-2, Kamdhenu Complex,
Opposite Sahajanand College,
Panjara Pol, Ahmedabad,
Gujarat 380015

Sub: Newspaper Advertisement under Regulation 47 read with Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Dear Concern,

With reference to the above captioned subject, please find enclosed herewith the clippings of the English newspaper "**The Pioneer**" and Hindi Newspaper "**The Pioneer**" dated 15th August, 2024 in which Un-Audited Financial Results for the quarter ended 30th June, 2024 has been published.

This is for your information and record.

Thanking You,

For and on Behalf of Board of Directors Rotographics (India) Limited

Manish Kumar Kori (Whole Time Director) DIN: 10426839

Place: New Delhi



BJP sweeps Panchayat polls in Tripura, wins 97 per cent of seats



PTI AGARTALA

The ruling BJP swept the Three-tier Panchayat polls in Tripura, winning 97 per cent of seats, an official said on

Wednesday. The BJP secured victory uncontested in 71 per cent of the seats in Gram Panchayats, Panchayat Samitis and Zilla Parishads. The voting for the remaining 29 per cent seats was held on August 8 and the counting ended on Tuesday.

The party won 584 Gram Panchayats out of 606, 34 of 35 Panchayat Samities and eight out of eight Zilla Parishads, the

PTI THIRUVANANTHAPURAM

per cent in the landslides.

accommodation, he added.

Wayanad on July 30.

the landslides, he said.

200 lives.

said.

rerala Chief Minister Pinarayi Vijayan on

Wednesday announced a compensation

of Rs six lakh to the next of kin of those who

died in the massive landslides that hit Wayanad district recently and claimed over

Vijayan said that of the Rs six lakh, Rs four

lakh would come from the State Disaster Relief Fund and the remaining from the Chief Minister's Disaster Relief Fund He also announced that Rs 75,000 would be allocated from the CMDRF to those who lost eyes and limbs or suffered disability up to 60

The CM also said that Rs 50,000 financial

assistance would be given to those who

suffered disability between 40 to 60 per cent

or suffered very serious injuries in the

Besides that, the survivors opting for rented

accommodation or living with their relatives

will get Rs 6,000 per month towards rent as

part of the rehabilitation of the victims, he

This amount, however, will not be available

to those who get rent-free or fully sponsored

In cases of partial sponsorship, the remaining amount will be allowed as

monthly rent up to a maximum of Rs 6,000,

the CM said at a press conference here. Vijayan also said that so far 231 bodies and

206 body parts have been found, following the massive landslides that hit parts of

A total of 401 samples of bodies and body

parts underwent DNA testing and of them

349 were found to be of 248 persons — 121

expert team led by senior scientist John

Matthai of the National Centre for

Geosciences, which has been tasked by the

State Disaster Management Authority to

inspect the landslide-hit areas in Wayanad's

Meppadi panchayat, was carrying out its

The team will assess the possible dangers in

different parts of the disaster-stricken area

and nearby sites as well as how the disaster

happened and what phenomena occurred in

Vijayan further said that additionally a

drone-based LIDAR survey will also be carried out to determine what is underneath

the disaster-stricken areas and how the land

there can be used in future. Major landslides

hit the Mundakkai and Chooralamala

regions of Wayanad on July 30 almost

males and 127 females, he further said. The CM also said that the five-member

The saffron party had won the both Lok Sabha seats in the northeastern state in June. Out of 96 seats contested in

eight Zilla Parishads, the BJP won 93 seats, while the Congress and CPI(M) emerged victorious in two and one seat respectively, State Election Commissioner Asit Kumar Das said.

In the case of Panchayat Samitis, the state's party won 173 of the total 188 seats where voting was held. The CPI(M) and the Congress bagged six and eight seats respectively. Das said that the BJP won 1,476 of the 1,819 Gram

Kerala landslides: CM announces ₹6 L

decimating both the areas.

On the same day, several

landslides had also hit Vilangad in Kozhikode district, the CM said, adding

that a separate rehabilitation

package will be worked out for

that area also once the

authorities complete their

inspection and evaluation of

ATHE PIONEER A

CHANGE OF NAME

I, Syed Mohammad Qasim,

S/o. Syed Mohammad

Mohsin, R/o. A-265, 1st Floor,

New Friends Colony, New

Delhi-110025 have changed

my name to Mohd Oasim and

also my father's correct name

I, Dipendu Dey S/o Mr. Satya

Narayan Dey R/o NKP-1/51-

A/FF, Nyay Khand-1, Vidhayak

Colony, Line -1, Bijali, Ghar,

Indirapuram, Ghaziabad, U.P.

201014, hereby declare that in

my some of documents my

father's name is wrongly

mentioned as S N Dev. his

true and correct name is Satya

Narayan Dey, which may be

amended accordingly.

PD(682)A

PD(683)C

is Mohd Mohsin.

the devastation there.

compensation to kin of deceased

The CPI(M), Congress and the Tipra Motha got 148, 151, and

24 seats respectively.
The BJP thanked people for reposing faith in the BJP in the Panchayat elections. parties, The opposition

however, said that they could not field candidates in 71 per cent of the seats because of the alleged terror tactics of the

ruling party. Chief Minister Manik Saha said, "The mandate shows the people continue to keep faith in Prime Minister Narendra Modi and his development programmes. The BJP won 97 per cent of the seats with huge Panchayats seats contested. margins. There must be an

seats in the Panchayat polls in future.

BJP state president Rajib Bhattacharjee said the party's average winning margin stands at 97 per cent.

The opposition CPI(M), however, termed the poll verdict as "an alarm call for the ruling dispensation as the

effort to win 100 per cent of seaffron party faced tough fight seats in the Panchayat polls in those areas where the opposition parties managed to field candidates.

"One CPI(M) candidate of Zilla Parishad was killed at Rajnagar in South Tripura district by the ruling party's goons. Despite winning 71 per cent seats, the ruling party terrorized workers of the

and counting Leader of the election process," Opposition in the Tripura Assembly Jitendra Chaudhury said.

The BJP faced strong resistance and defeat in the areas where the opposition could field candidates, the CPI(M) leader claimed.

NORTHERN RAILWAY NOTICE INVITING TENDER 30-Elect-30-T-2024-25-E3 Electrical work in connection with (i) Provision of RCC over Head Tank & pump house with pipeline for passengers at KEX, KQL, THBN & NNX station. (ii) Provision of RCC over Head Tank & pump house with pipeline for passengers at NO & RPMU station. (iii) Provision of passenger halt station at Jiwana village at Km. 55.63 between Kasimpur kheri (KPKI) and Baoli (BAOL) railway station. Approx. Cost of the works in Rs. 40.87 lacs Sr. Divil Elect. Engineer/General, New Delhi. Address of the office Bid Security Rs. 81800.00 Date & time of submission of tender 20.09.2024, 12.00 Hrs

& Sr. Divl. Elect. Engineer/General, New Delhi SERVING CUSTOMERS WITH A SMILE 2543/24

20.09.2024, 12.00 Hrs

🕸 Karnataka Bank Ltd. 📖

Regional Office: Delh Plot No 8-B first floor Rajendra Park Pusa Road

Phone: 011-40591567 Fax: 011-40591567 CIN: L85110KA1924PLC001128

AUCTION NOTICE The following person who have availed loan's against pledge of Gold ornaments have no repaid the amount in spite of our demand notices. Therefore, please take notice that if the rincipal / interest and other charges are not paid on or before 22-08-2024 the pledged maments will be publicly auctioned on 23-08-2024 at Agra Branch 11:00 am in Bank's

premises subject to rules and regulations of the Bank. The Bank reserves the right to cancel / postpone the auction to any other convenient date without further notice and ssigning reasons therefore. Gold Loan A/c No. & date Name of the 0307002000078601 Date 5-08-2024

ROTOGRAPHICS (INDIA) LIMITED
CIN: L74899DL1976PLC008036
Regd. Off.: Unit Nc 8, Ground Floor, Pocket M, Sarita Vihar, New Delhi 110076
Telephone: 011-47368600 E-mail: info@rotomdia.co.in Website: www.rotoindia.co.in

Particulars	Quarter		Corresponding	Previous
		Quarter Ended		
	(30/06/2024)	(31/03/2024)	in the previous year	
Defect Nation Below)	// / / / / / / / / / / / / / / / / / /	(44941)		(31/03/2024)
Refer Notes Below)	(Unaudited)		(UnAudited)	(Audited)
. Total Income from Operations	1.27	1.27	39.49	43.30
 Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extra Ordinary items*) 	-0.38	-4.12	0.97	-6.83
. Net Profit/(Loss) for the period	-0.00	-7.12	0.01	-0.00
before tax(after Exceptional and/or Extra Ordinary Items*)	-1.10	-4.12	0.97	-6.83
. Net Profit/(Loss) for the period				
after tax(after Exceptional and/or Extraordinary items)	-1.11	-3.36	0.97	-6.07
. Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/Loss] for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	-1.11	-3.34	0.97	-6.05
. Equity Share Capital	360.13	360.13	360.13	360.13
. Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year.	0.00	0.00	0.00	0.00
Earning Per Share (of Rs.1/- each) (for continuing and discontinued operations)				
1. Basic :	-0.03		0.03	-0.17
2. Diluted :	-0.03	-0.09	0.03	-0.17
otes				
The above recults were revi	award by the I	Audit Community	on and reviewed by	the Reard of

The above results were reviewed by the Audit Commmittee and reviewed by the Board of Directors in their meeting held on 14th August, 2024.

These financial results have been prepared in accordance with recognition and measurement principles laid down in the Indian Accounting Standards 34 Interim Financial Reporting (Ind AS-34) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereunder and other accounting principles generally accepted in India.

The Statutory Auditors have carried out a Limited Review of the unaudited standalone Financial Results for the quarter ended 30th June, 2024.

The company is principally engaged in Single Business segment Viz. Trading, there is no oth reportable segment in terms of Ind AS-108 'Operating Segments'. Previous period figures have been regrouped/ reclassified wherever necessary, to conform this period's classification.

0.34

(1%)

1.24

3.18

8%

4 %

0.29

0.72

(17%)

(Formerly known as ReNew Services Private Limited) CIN No.: U74999DL2019PTC348911 Regd. Office: 138, Ansal Chambers II, Bikaji Cama Place, Delhi-110066 Corporate Office: ReNew.hub, Commercial Block-1, Zone-6, Golf Course Road, DLF City Phase-V, Gurugram, 122009, Haryana, Phone – 0124-4896 670/ 80 Statement of Unaudited Financial Results for the quarter ended 30 June 2024

Particulars Quarter ended 30 June 2024 Quarter ended 31 March 2024 30 June				
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	31 March 202 Audited
Tota Income from Operations	1,109	1,131	916	4,214
Net Profit / (Loss) for the period (before				
Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(46)	(266)	(55)	14
Net Profit / (Loss) for the period before tax				
(after Exceptional and/or Extraordinary items#)	(46)	(266)	(55)	14
Net Profit / (Loss) for the period after tax				
(after Exceptional and/or Extraordinary items#)	(44)	(217)	(56)	18
Total Comprehensive Income for the period				
[Comprising Profit / (Loss) for the period				
(after tax) and Other Comprehensive				
Income (after tax)]	(44)	(214)	(56)	19
Paid up Equity Share Capital	0	0	0	
Reserves (excluding Revaluation Reserve)	(30)	16	(232)	1
Net worth**	(30)	16	(232)	1
Debt Equity Ratio *	2.29	2.39	0.58	2.3
Earrings Per Share (of Rs. 10/- each) (for				
continuing and discontinued operations)	// /00 001	(0.1 7.15 0.0)	/E 000 001	40.000.4
1. Basic: (in Rs.)	(4,426.09)	(21,745.86)	(5,636.63)	18,869.1
2. Dluted: (in Rs.)	(4,426.09)	(21,745.86)	(5,636.63)	18,869.1
Debenture Redemption Reserve *	104	104	(0.44)	10
Deb: Service Coverage Ratio *	1.24	0.31	(6.44)	2.6
Interest Service Coverage Ratio *	1.24	0.31	(0.08)	2.6
Current ratio	1.29		1.03	2.1
Long Term Debt to Working Capital	1.03	1.03	5.49	1.0
Bad debts to Account receivable Ratio*	Nil 0.76	Nil 0.45	Nil 0.87	0.4
Current Liability Ratio Tota Debts to Total Assets Ratio	0.76	0.45	0.07	0.4
Debter Turney Detict	0.07	0.09	0.13	0.5

Non-Current borrowings)

Debtors Turnover Ratio*

Operating margin (%)

Net profit margin (%)

Inventory Turnover Ratio*

lotes:

Ratios have been computed as follows:
- Earning per share (Basic & Diluted) = Profit after Tax / Weighted average number of equity shares
- Debt Equity Ratio = Debt (Amount due to Debenture Holders) / Equity (Equity share capital + share premium + quasi equity i.e. Short term borrowing)
- Interest Service Coverage Ratio = Profit before interest, prior period items, tax, extraordinary items and depreciation / (Total Interest Expense).
- Debt Service Coverage Ratio = (Net Profit after taxes + non-cash operating expenses + interest + Depreciation + tax expense) / (Total Interest Expense + Long Term Debt Principal repayments)
- Current Ratio= Current Assets/ Current Liabilities
- Long Term Debt to Working Capital = Non- Current borrowing including current maturities of

0.26

0.62

- Long Term Debt to Working Capital = Non- Current borrowing including current maturities of Non-current borrowings/ (Current Assets - Current Liabilities excluding current maturities of

Bad debts to Accounts Receivable ratio = Bad debts / Average Trade receivables and Average

Current Liability Ratio = Current Liabilities/ Total Liabilities

- Total Debts to total Assets = Total outstanding debts/ Total Assets - Debtors turnover = Revenue from operation/ Average trade receivables and Average

unbilled Revenue nventory Turnover = Revenue from operations/Average inventories

- inventories - Operating margin(%) = (Profit before tax + Finance costs - Other income)/ Revenue from operations - Net Profit Margin (%) = Net profit after Tax/ Revenue from Operations - Asset Coverage Ratio = (Total Assets) / Debt (Amount due to Debenture Holders)

The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the BSE Limited

(BSE) under regulation 52 of the Listing Regulations. The full format of the quarterly financial results is available on the websites of the Stock Exchange and the Company - https://renew.com.

For the other line items referred in regulation 52(4) of the Listing Regulations, pertinent disclosures have been made to the Bombay Stock Exchange (BSE) and can be accessed on the URL https://www.bseindia.com/. The company is in the business of operation and maintenance of wind and solar power plants. There is only one segment (business and/or geographical) in accordance with the requirements of IND AS - 108 "Operating Segments".

The above financial results of the Company for the quarter ended 30 June 2024 have been approved by the Board of Directors of the Company at the meeting held on 14 August 2024.

The statement has been prepared in accordance with recognition and measurement principles laid down in accordance with the Indian Accounting Standard as prescribed under Section 133 of the Companies Act. 2013 ('the Act') read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards)

Rules, 2015 and relevant rules issued thereunder and other recognized accounting practices and policies. Care Ratings has assigned long term issuer rating and rating for the outstanding non-convertible debentures of the Company to "CARE A+ (CE)" with stable outlook.

Previous period figures have been re-grouped / re-classified wherever necessary, to conform to current period's classification. For and on behalf of the RenServ Global Private Limited (Formerly known as ReNew Services Private Limited)

EXTENSION OF PERIODICITY OF SPECIAL TRAINS

Opening of tender

Website &

For the convenience of Rail Passengers, Railways have decided to extend the Periodicity of following special trains as per details given below:-

chodicity of following opeolar trains as per actails given below.							
Train No.	From	То	Days of Run	Earlier Notified Upto	Extended Period		
05734	Katihar	Amritsar	Thursday	15.08.2024	Upto 12.09.2024		
05733	Amritsar	Katihar	Saturday	17.08.2024	Upto 14.09.2024		
02525	Kamakhya	Anand Vihar Terminal	Friday	09.08.2024	Upto 06.09.2024		
02526	Anand Vihar Terminal	Kamakhya	Sunday	11.08.2024	Upto 08.09.2024		
05671	Guwahati	Anand Vihar Terminal	Wednesday	14.08.2024	Upto 21.08.2024		
05672	Anand Vihar Terminal	Guwahati	Friday	16.08.2024	Upto 23.08.2024		
05919	New Tinsukia	Bhagat Ki Kothi	Monday	12.08.2024	Upto 19.08.2024		
05920	Bhagat Ki Kothi	New Tinsukia	Friday	16.08.2024	Upto 23.08.2024		

Rest of all information will hold good

For detailed information regarding stoppages and timings of above trains, please call RailMadad Helpline No. 139 or visit enquiry website www.enquiry.indianrail.gov.in

Please ioin us on

Visit RailMadad Website: www.railmadad.indianrailways.gov.in Download RailMadad app



STATE BANK OF INDIA

HOME LOAN CENTRE FARIDABAD, NEELAM CHOWK, FIRST FLOOR, NIT, FARIDABAD, HARYANA-121001

NOTICE FOR E-AUCTION SALE ON 04.09.2024 FOR MOVABLE PROPERTY Sale Notice for E-Auction of Movable Assets under the Securitization and Reconstruction of Financial

Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with provision to Rule 6(2) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described movable property hypothecated /charged to the Secured Creditor, the Physical Possession of which has been taken by the Authorized Officer State Bank of India, the Secured Creditor, will be sold on "As is Where is", As is What is" and Whatever there is" on 04.09.2024, for recovery of bank due to the secured creditor as under:-

nterested bidder may deposit Pre-Bid EMD with eBKray before the close of e-Auction. Credit of Pre-Bid EMD bidder only after receipt of payment in eBKray's Bank Account and up-dation of such information in the e-au may take some time as per banking process and hence bidders, in their own interest, are advised to subr

	S. No.	Name of the Borrower(s) / Guarantor(s)	Outstanding Dues for Recovery of which Property/ies is/are being Sold	Description of Holder	Reserve Price (Rs.) (below which properly could not be sold) Earnest Money (EMD) 10% of the Reserve Price Bid Increment Amount	Name of the Contact Person	
1		(38362542882) Future Interest and Other charges extra	155 H 5 C 7 F C C 2 C C C C C C C C C C C C C C C C	Petrol HR-51-BW-7779 Model- 2019 Motor Pending KM	₹ 2,60,000/-	Inder Kalra Mob: 8894337020	
			C 22/2012/10/2014/00/		₹ 26,000/-		
			charges extra		₹ 1,000/-	Rajesh Kumar Mob:	
-1			w.e.f. 13.07.2021	meter researing rem	4.0404-9723-977-977		

Date and time during which inspection of the movable secured assets to be sold and intending bidders should satisf themselves about the Assets and their specification, Contact Person with mobile number. 1) Name Arun Mishra Mob: 9795324241 (For FORD FREE STYLE)

Last Date of EMD Deposit on or before 03.09.2024 upto 4:00 PM

Account/ Wallet in which EMD to be remitted: Bidder's own wallet Registered with EBkray. on its e-auction site:
https://ebkray.in/eauction-psb/eproc-listing by means of NEFT/RETS. EMD of Reserve Price to be transferred by bidders by means of
challan generated on his/her/their bidder account maintained with EBkray on its e-auction site: https://ebkray.in/eauction-psb/eproclisting by means of NEFT from his /her/their bank. For any assistance, please call EBkray HELPDESK: +91 8291220220,
support.ebkray@psballiance.com and/or Authorized Officer. TERMS AND CONDITIONS OF THE E-AUCTION ARE AS UNDER:

(1) E-Auction is being held on "As is where is", "as is what is basis " and "whatever there is basis "and will be conducted "Or Line". The auction will be conducted through the Bank's approved service provider EBkray at their web portal: https://ebkray.in/eauction-psb/eproc-listing (2) Successful bidder to pay GST as applicable on the successful bid amount, viz sale value. dge and information of the Authorized Officer there is no encu

tending bidder should make their own independent inquiries regarding the encumbrances, title of the propertyries put on auction and

claims/bights/dues/affecting the property prior to submitting their bid.
The e-Auction Advertisement does not constitute and will not be deemed to constitute any commitment or any representation of the Bank The property is being sold with all the existing and future encumbrances whether known or unknown to the bank. The Authorized Office shall not be responsible in any way for any third party claims/rights/ dues.

(4) The Earnest Money Deposit (EMD) of the successful bidder shall be retained towards part sale consideration and the EMD of the unsuccessful bidders shall be refunded. The Earnest Money Deposit shall not bear any Interest. The successful bidder shall have to deposit 25% of the sale price, immediately on acceptance of bid price by the Authorized Officer and the balance of the sale price on or before 15° day of the sale. Default in deposit of amount by the successful bidder would entail forfeiture of the whole money already deposited and property shall be put to the e-auction and the defaulting bidder shall have no claim/right in respect of property / amount.

(5) For detailed terms and conditions of the sale please refer to the link at the Bank's Service Provider's web portal https://ebkray.ln 8

at Bank's portal https://www.sbl.co.in Date: 14.08.2024 Place: Faridabad

COSCO (INDIA) LIMITED CIN: L25199DL1980PLC010173

Regd. Office: 2/8, Roop Nagar, Delhi-110 007 Website: www.cosco.in Email: mail@cosco.in Tel.: 91-11-23843000 Fax: 91-11-23846000

EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE

QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2024

SI.	Particulars	Quarter Ended			Year Ended
No.		30.06.2024	30.06.2023	31.03.2024	31.03.2024
		Unaudited	Unaudited	Audited	Audited
1	Total Income from operations	4,891.11	4,555.49	4,947.14	17,749.68
2	Net Profit for the period before Tax	215.78	122.58	113.47	469.06
3	Net Profit for the period after tax	153.15	54.33	85.36	320.79
4	Total Comprehensive Income for the period	153.76	55.08	87.46	325.14
	[Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]				
5	Equity Share Capital	416.10	416.10	416.10	416.10
6	Other Equity	Date : 14.	08.2024		4,564.57
7	Earnings Per Share (of ₹10 each)				
(a) (b)	Basic (₹) Diluted (₹)	3.68 3.68	1.31 1.31	2.05 2.05	7.71 7.71

Notes : -

1 The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly / Annual Financial Results are available on the Stock Exchange Websites (www.bseindia.com/corporates) and on the Company's website

2 The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their respective meeting held on August 14,2024

> By Order of the Board for Cosco (India) Limited Devinder Kumar Jain

Managing Director and CEO DIN: 00191539 Place : Delhi Date: 14.08.2024

orther details can be seen from e-procurement portal https://www.tender OIPR-13225/11/0012/2425

e-procurement Notice for Bid Identification No. SEPH-DIVISION, CTC- 12 of 2024-25 . Name of the work :- 1 No PH Work 2. Estimated cost : - Rs. 959.85 Lakh 3. Period of completion 4. Date & time of availability of bid : - 20.08.2024 from 11.00 AM to 03,09.2024 upto 5.00 PM 5. Last date & time of seeking :- 27.08.2024 upto 5.00 P.M 6. Last date / time of receipt of : - 03.09.2024 upto 5.00 PM 7. Date & time of opening of bids : - 04.09.2024 at 11.00 AM

GOVERNMENT OF ODISHA

OFFICE OF THE SUPERINTENDING ENGINEER,

P. H. DIVISION, CUTTACK

8. Name and address of the officer inviting bid : - The Superintending Engineer P.H.Division, Cuttack-753004, Odisha. Ph. (0671) 2441063, email :- eephctcii@gmail.com

sephdctc521@gmail.com

Additional Chief Engineer, Superintending Engineer P.H. Division, Cuttack

Place: Gurugram Date: 14th August, 2024

(Sd./-) Sanjay Jagadish Kulkarni Managing Director, DIN: 07852390

ई-कॉमर्स साइट के नाम पर ठगी, 21 गिरफ्तार

नाइका, ईबे, मिंत्रा, ईटीएसवाई देते थे फर्जी सर्टिफिकेट, 500 से अधिक लोगों को बनाया शिकार

पायनियर समचार सेवा। नोएडा

नोएडा पुलिस ने 16 पुरुष और 5 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। ये लोग उन विऋेताओं के साथ ठगी करते थे जिनको अपना प्रोडेक्ट नाइका, ईबे, मित्रा, ईटीएसवाई ई-कॉमर्स कंपनियों के प्लेटफार्म पर बेचना चाहते थे। ये इन ई कॉमर्स कंपनियों से अपने को आथोराइज बताकर उनको फर्जी सर्टिफिकेट देते थे। अब तक 500 से ज्यादा लोगों को के साथ ठगी कर चुके है। इनमें से अधिकांश दूसरे राज्य के विक्रेता है।

डीसीपी शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि साइबर हैल्प डेस्क पर इस तरह की लगातार शिकायत मिल रही थी। इसलिए लोकल इंटेलिजेंस के आधार पर टीम लेकर सेक्टर-63 डी-247/01 इन्फोबीम सोल्यसेन्स कंपनी के पते पर जाकर चेक किया गया। यहां नाइका, ईबे, मित्रा, ईटीएसवाई आदि ई-कॉमर्स कंपनियों के फर्जी सर्टिफिकेट फ्रेम कराकर दीवारों पर लगाये गये थे। जिससे यहा आने वाले को यकीन हो सके कि यह ई-



कॉमर्स कंपनियों द्वारा उनके प्लेटफार्म पर प्रोडेक्ट को बेचने के लिए अधिकृत की गयी है। जिस समय पुलिस वहां पहुंची फर्जी सर्टिफिकेशन का कार्य किया जा रहा था।

इनकी पहचान जोगेन्द्र कुमार, हिमांशु शर्मा, गोपाल सक्सेना, रेयांश शर्मा, अखिल अनिल कमार, कार्तिक मिश्रा, आकाश यादव

से 12 डैस्क टाप कंप्यटर, 12 लैपटॉप आदि

सामन बरामद किया गया ये लोग नाइका. ईबे.

कंपनियों से अपने को अधिकृत बताते थे। सोशल मीडिया के जरिए ऐड करके बताते थे कि जिन लोगों को इन कंपनियों के प्लेटफार्म से अपना सामान बेचना है वो हमसे सर्टिफिकेट ले सकता है। इस ऐड में अपना मोबाइल नंबर , मेल आईडी दी जाती थी।

किसी विक्रेता से संपर्क होने पर अपना सामान बेचना है। आपको हमे फीस के रूप में पैसे अटा करने होगे।

जिसके बाद हम आपका सामान ई-कॉमर्स वेबसाइट पर ब्रिकी के लिए प्रसारित करा देंगे। विऋेता इन लोगों के ऊपर विश्वास कर लेते थे। यह लोग उनके विश्वास का फायदा उठाकर प्रलोभन देकर ई-कॉमर्स में सामान प्रसारित करने के एवज में उनसे पैसे ठगते थे। जब विक्रेता इन लोगो के झांसे में आकर इनके खाते में भेज देते थे। ये लोग ना तो उनका सामान ई-कॉमर्स पर प्रसारित करते थे और ना ही उनके पैसे वापस करते थे। यह

पर पैसा हडपते थे। इन लोगों ने फीस डिसाइड की हुई थी।

मसलन जैसा प्लेटफार्म होता था उसी हिसाब से फीस वसूल की जाती थी। यानी 10 हजार से 20 हजार रुपए तक फीस प्रति ग्राहक लेते थे। ये फीस टाइम बाउंड के हिसाब से ली जाती थी। यदि कोई प्रोडेक्ट एक महीने के लिए प्रसारित करना है तो उसकी अलग फीस होती थी। अब ये लोग करोडों रुपए की जालसाजी कर चुके है। इनके कई खातों को पुलिस ने फीज किया है। जिसकी जांच की जा रही है। इस कंपनी के डायरेक्टर जोगेन्द्र, सर्टिफिकेट तैयार करते थे। और कर्मचारियों को भेजने के लिए कहते थे। कर्मचारी इनसे मिले डेटा नंबरों के वाट्सऐप पर विज्ञापन बनाकर इसे भेजते थे। कोई भी विक्रेता फंसने पर ये उससे पैसा ऐठते थे। इन पैसों में कर्मचारियों को कुछ पैसा देकर बाकी पैसा

बैंक मैनेजर आत्महत्या मामले में पत्नी गिरफ्तार

नोएडा। इको सिटी सोसाइटी में 4 अगस्त को सातवें फ्लोर से गिरकर बैंक मैनेजर ने सुसाइड कर लिया था। इस मामले में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें मैनेजर मुंह के बल कॉमन एरिया में लहूलुहान पड़ा हुआ है। मामले में मैनेजर की बहन के आरोप के बाद मृतक की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वीडियो को पुलिस को भी टैग किया गया। पुलिस ने मृतक की पत्नी को गिरफ्तार किया है। मृतक की बड़ी बहन ने इस मामले में पत्नी के खिलाफ सुसाइड के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज कराया है। दरअसल नोएडा के सेक्टर-137 स्थित इको सोसाइटी के टावर की 7वीं मंदिर पर स्थित एक फ्लैट में सहिल सबरवाल अपनी बेटी और पत्नी के साथ रहते थे। एक निजी बैंक में मैनेजर थे। साहिल 7वीं मंजिल से नीचे कूद गए। घायल होने पर उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज

के दौरान उनकी मौत हो गई।

संक्षिप्त समाचार



स्वतंत्रता दिवस पर सरक्षा को लेकर संघन चेकिंग अभियान चलाती पलिस।

स्वतंत्रता दिवस को लेकर नोएडा में अलर्ट

नोएडा। नोएडा हमेशा से सेंसिटिव जोन रहा है। ऐसे में स्वतंत्रता दिवस से नोएडा अलर्ट जारी है। साथ ही अलग-अलग जोन में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। बॉर्डर पर ये अभियान दिल्ली और नोएडा पुलिस संयुक्त रूप से चला रही है। बॉर्डर पार करने वाले वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा संदिग्ध लोगों की आईडी और जांच पड़ताल की जा रही है। इसके अलावा नोएडा होटल, लॉज व यात्री ठहराव वाले स्थानों के आस-पास चेकिंग की जा रही है। उनके रजिस्टर चेक किए जा रहे है। साथ ही पुरा रिकार्ड भी चेक किया जा रहा है। संवेदनशील इलाकों में नजर रखी जा रही है। इसके अलावा नोएडा की अंतरराज्यीय व अंत जनपदीय सीमा चिल्ला बॉर्डर, डीएनडी बॉर्डर, कालिंदी कुंज बॉर्डर, मॉडल टाउन, लाल कुआं, जेवर सीमा व अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर लगे हुए सभी यातायात पॉइंट को चेक करते हुए ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को ब्रीफ किया गया एवं उन्हे आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

रालोद कार्यकर्ताओं ने किया जयंत चौधरी का स्वागत

नोएडा। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कौशल विकास एवं उद्यमिता व शिक्षा राज्य मंत्री चौधरी जयंत सिंह का डीएनडी फ्लाईओवर नोएडा पर जिला अध्यक्ष जनार्दन भाटी व विजेंद्र यादव महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में नोएडा आगमन पर स्वागत किया गया इस मौके पर महेश आर्य राष्ट्रीय सचिव पूर्व एमएलसी, प्रदेश महासचिव मनोज चौधरी, अजीत दौला, एड इंद्रवीर भाटी, रविंद्र भाटी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, प्रदेश प्रवक्ता श्रीमती प्रियंका अत्रि, श्रीमती डॉ रेखा चौधरी, श्रीमती हेमा पाठक, हरवीर सिंह तालान, मनवीर भाटी, जोगेंद्र तालान, यशवीर भाटी, निशांत भाटी, नीरज शर्मा, विनीत भाटी आदि सैकडों कार्यकर्ताओं पर स्थित थे।

हाईराइज सोसायटी के मंदिर से दान-पात्र चोरी

में बने मंदिर से चोर दान पत्र लेकर फरार हो गया। चोरी की वारदात सोसाइटी में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। इसकी शिकायत पुलिस को दी गई है। वहीं सोसाइटी में रह रहे 350 परिवार अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। गाजियाबाद के थाना नंदग्राम क्षेत्र में राजनगर एक्सटेंशन में हिमालय तनिष्क नाम से हाई राइ? सोसायटी है। इस सोसाइटी में 356 फ्लैट है। जिसमें से 350 प्लाटों में परिवार रह रहे हैं। सोसाइटी के निवासी गौरव बंसल ने बताया की सोसाइटी में ही मंदिर बना हुआ है। जब महिलाएँ मंदिर की सफाई करने गई तो उन्होंने देखा कि मंदिर में रखा दान है। इसके बाद जब सीसीटीवी चेक किया गया तो उसमें पता चला चोर मंदिर के दान पत्र को बड़े आराम से लेकर जा रहा है। अज्ञात चोर सोसायटी की दीवार फांद कर अंदर घुसा और महज कुछ मिनट में दान

नोएडा में प्रॉपर्टी खरीदना महंगा, नए रेट लाग

🛡 आवासीय, औद्योगिक और संस्थागत में 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी, बोर्ड में मिला थी मंजूरी

पायनियर समाचार सेवा । नोएडा

नोएडा की संपत्ति का आवंटन अब नई दरों पर होगा। इसके लिए औद्योगिक, संस्थागत आदि संपत्तियों के आवंटन रेट में छह प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी गई है।

प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि बोर्ड बैठक के मिनट्स आ गए हैं। इसके आधार पर मंगलवार से

PUBLIC NOTICE

leg:-Comer Front Side of Upper Ground

floor (RHS) (Hereinafter referred to as the
Said floor), Built up on Flot Bearing No. 80,
rea measuring 525 sq. 43c., Out of Khasra

to. 40/1/2, situated in the revenue estate

f Village Nilothi Delhi State Delhi and

the colony known as Vikas Vihar, C Block,
illothi Extr., New Delhi. (Hereinafter

eferred to as the "Said Property

be it known to all that our clients,
frs.-Harvinder Kaur and Mr. Bhupinder

singh (hereinafter called the "Purchaser")

subhash Chander (hereinafter called the

Attorney-holder). In this connection, the

kttorney-holder has informed the purchaser

tat he is the sole and absolute Attorney
holder in respect of the said property vide

d Will dated 02/06/2023 executed by Mr. V ajendran in his favour. Mr. V. Rajendran irchased the said property from Mr. naram Singh and Ms. Pooja vide Sale

the said floor.

Any person including Bank/s, Financial Institution/s, relative/s having any claim, right, title or any interest of any nature whatsoever into or upon the said floor is hereby called upon to make the same known, in writing, with documentary evidence, by Registered AD Post, to the undersigned at the address mentioned Ferein below within 0.7 days of publication of this notice and in the event of no response having been received to the notice, the title of the attorney-holder in respect of the said floor shall be deemed.

respect of the said floor shall be dee

in espect of the sale floor shall be deeme to be clear of any charge or encumbrance of any nature whatsoever and any subsequen taim shall not bind our clients/ Purchaser, it

iny manner whatsoever.

Shivkant Arora, Advocate

के लिए भूखंड की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया था। बता दे प्लस से लेकर ई श्रेणी में बांट रखा है। कॉमर्शियल सेक्टर में यह श्रेणी ए

इंडस्टियल प्लॉट पर हस्तांतरण शुल्क प्रचलित आवंटन दर का चार फीसदी कार्यशील इकाइयों से लिया जाएगा. सभी परिसम्पत्तियों की दरों तरह ही होगा। मेट्रो स्टेशन के पास के सेक्टर की भू-दर पांच फीसदी और

आवासीय भूखंडों , ग्रप हाउसिंग, कमर्शियल विभाग के प्लाटों पर अंतरण शुल्क प्रचलित आवंटन दर का 2.5 प्रतिशत देना होगा। श्रमिक कुंज के मकानों के लिए हस्तांतरण शुल्क 12,000, एलआइजी भवनों के लिए ट्रांसफर फीस, अंतरण के समय प्रचलित आवंटन दर का 1 फीसदी दर का 2.5 प्रतिशत लिया जाएगा। संस्थागत क्षेत्र की कार्यशील इकाइयों को टांसफर फीस प्रचलित आवंटन दर का 5 फीसदी होगा। ग्रुप हाउसिंग

and his wife namely Mrs. Shabista Naqi W/o

Mohd Naqi both residing at H.no. 179

Masjid Tehwar khan, Naya bans, Delhi

110006 has severed/disowned their sor

Mohd Tauheed S/o Mr. Mohd Naqi and his

wife namely Ayesha Naaz W/o Moho

Tauheed both residing at H.no. 179, Masjid

Tehwar khan, Nava bans, Delhi 110006

from all their movable and immovable

properties from the date of publication of

this notice due to harassment and bad behavior by them towards my clients, in

anybody deals/incurs any liability/loss due

any transaction/dispute in any manner in the

uture towards the above said persons. MOHAMMAD FUZAIL (Advocate) Seat Behind

Court Room No.-36 Tis Hazari Court, Delhi-110054

नेशनल हाईवे पर रील बनाते वक्त हादसा, ३ युवक घायल 🗕 कैटर में घुसी बाइक

के हुए दो टुकड़े

हैं। इस हादसे में कैंटर चालक भी

घायल हुआ है, जो वहीं पर खड़ा हुआ

था। इंदिरापुरम क्षेत्र की क्लाउड नाइन

सोसाइटी में रील बनाते वक्त छठी

मंजिल से गिरी 16 वर्षीय मोलिशा के

एक पैर में फ्रेक्चर आया है। मंगलवार

को वो फ्लैट की बालकनी में रील

बना रही थी। इस दौरान मोबाइल छूट

गया। उसे पकडने के प्रयास में

मोलिशा नीचे आ रही। ग्राउंड फ्लोर

मोलिशा ठीक इसके ऊपर आकर

उसका सिर जमीन पर सीधे नहीं

रील बनाने के चक्कर में एक और हादसा हो गया। नेशनल हाईवे-9 पर स्पोटर्स बाइक सडक पर खडे कैंटर में घुस गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि बाइक के दो टुकड़े हो गए। हादसे में तीन लोगों घायल हो गए।

इसमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है। ये हादसा मसूरी थाना क्षेत्र में हुआ है। दरअसल, मसूरी निवासी शारिक अपने परिचित अब्दुल रहमान से उसकी बाइक मांगकर लाया था। शारिक अपने दोस्त के साथ हाईवे पर रहा था। इस दौरान उन्हें सड़क किनारे खडा कैंटर नहीं दिखा और बाइक उसमें घुस गई। हेलमेट पहने नहीं होने से शारिक के सिर में गहरी चोटें आई

W/o Sh. Prakash Kumar A-27.

nis own costs, risks and consequences

and my clientess or her any other family

MONIKA MITTAL ADVOCATE Ch. No.M-5,

OPP. SBI, Tis Hazari Courts, Delhi-110054

PUBLIC NOTICE सार्वजनिक सूचना

Patel Nagar, Central, Delhi-110006 निवासीगण- म०न०. डी-1118, गली न०.: oresently residing at H.No.34, Punjabi अशोक नगर, चप्पल मार्किट, दिल्ली ने अपने पु Basti, Balieet Nagar, Delhi-110008 नवीन एवं पुत्रवधू नीतू को उनके दुर्व्यवहार has/have disowned and debarred her गलत आचरण के कारण अपनी समस्त चल अचल सम्पत्ति से बेदखल करके अपने सभ noveable and immovable properties and सम्बन्ध विच्छेद कर लिये हैं, उनके किसी भी कत्य/लेन-देन के लिए मेरे मुवक्किलग ny clientess has/have also severed all or her family relations with her due to her अरूण कुमार शर्मा अधिवक्ता Ch. No. G-712. 7th nisconduct and misbehavior and i Floor, Karkardooma Court, Shahdara, Delhi-110032. nybody deals with her, he will do so at

सार्वजनिक सूचना

मेरी मवक्किला रूकमनी पत्नी स्व० रघनाथ निवासी- म0न0. जे.बी-1/35, निकट काली क मन्दिर, वेलकम, सीलमपुर-3, उत्तर-पूर्वी दिल्ली-53 ने अपने पुत्र जगन नाथ एवं उसकी ाली पूजा को उनके दुर्व्यवहार व गलत-आचरण के कारण अपनी समस्त चल-अचल सम्प्रति रं बेदखल करके अपने सभी सम्बन्ध विच्छेद क लिये है. उनके किसी भी कत्य/लेन-देन के लिए मेरी मुवक्किला जिम्मेदार नहीं होगी।

अरूण कमार शर्मा अधिवक्ता Ch. No. G-712, 7th Floor, Karkardooma Court, Shahdara, Delhi-110032

iy ciient Mrs. Mubeen Begum W/o Late Mi bdul Salam R/o B 3/24, DDA Flats, Inderloi Delhi-35 also at: Khasra no. 28/4 & 28/5. Ga no. 10, Sangam Vihar, Delhi-84 has debarred hi son namely Mohd. Faraz and his wive namel Ruhina and their children namely master Moho Nizam and Master Abdul Qadir, from hi novable and immovable properties due to the nisconduct, misbehavior towards my client an other family members by them. If any person/s nay deal with them in any manner, then ne/she/they are self responsible. Akhil Anand (Advocate) Ch.-D-625, Karkardooma Courts, Delhi-32 M.No. 9711588388

Place: Rampur

14.08.2024

PUBLIC NOTICE

सीएम दर्पण डैश बोर्ड में RAMPUR FERTILIZERS LTD. नोएडा कमिश्नरेट अव्वल NOTICE नोएडा। कमिश्नरी नोएडा को मुख्यमंत्री

ice is hereby given that 36th Annual General Meeting ("AGM") of Rampur Fertilizers Limited (" ompany") will be held through video conferencing (VC) or other audio-visual means (CAWM) or other audio-visual means (CAWM) or other available (VC) and the said means (CAWM) or other available (VC) and the said meeting shall be eemed to be the Registered Office of fAM which will be sent in due course of time. The venue of the said meeting shall be eemed to be the Registered Office of the Company.

withinstry of Corporate Affairs ("MCA") has videlis General Circular No. 20/2020 dated 5th May 202 read with latest General Circular No. 9/2023 dated 25th September 2023, allowed companie whose Annual General Meeting ("AGM") are due in the year 2024, to conduct their AGM on co-before 30th September 2024, in accordance with the requirements provided in paragraphs 3 and of the General Circular No. 20/2020 ("MCA Circulars"). The Securities and Exchange Board on dia ("SEBI") also issued Circular No. SEBINHO/CFD/CFD-PoD-2/PICIR/2023/167/dated 7th Octobe india ("SEBT") also issued Circular No. SEBIH-IO/CERICE-P-01-2/PICIE/2/2/3/16 rated fin Octobe 2023 ("SEBI Circulars") permitted holding of AGM without physical presence of the members at the wenue and dispensed with the requirement of sending physical copies of Annual Report to the Members, in compliance with these Circulars, the 36th AGM of the Company will be held throug VC/OAVM only without physical presence of the members at the venue. The Members can atten and participate in the AGM through VC/OAVM only. Detailed instructions for joining the AGM will be provided in the Notice of AGM which will be sent to the members in the due course of time. Members may further note that in pursuance of above stated circulars, the Notice of the AGM, and Integrated Annual Report for the financial year 2023-24, will be sent through electronic mode only to those members whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant As per the SEBI Circulars, no physical copies of the Notice of AGM and Integrated Annua Report will be sent to any Member. Members who have not yet registered their email addresses are requested to follow the process mentioned below for registering their email addresses receive the Notice of the AGM and Annual Report electronically and to receive User ID and processed for such fair.

hysical Please send ISR1, ISR2 and SH-13 to RTA MAS Services Limited, T-34 2nd Floor Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi 110020. Form can be download from RTA websi i.e. www.masserv.com under download tab.

Demat Please contact your Depositary Participant (DP) and register your email address as per the process advised by DP. Please also update your bank detail with your DP for dividend payment by NACH if declare by company.

The Notice of AGM and Annual Report for FY 2023-24 will also be available on Company vebsite www.rampurfert.com and website of the Stock Exchanges where the shares of the ompany are listed. i.e. MSE Limited at www.msei.in and CSE Ltd. at www.cse-india.com.ar on the website of NSDL at www.evoting .nsdl.com in due course of time. Members attendin the meeting through VC/ OAVM shall be counted for the purpose of Quorum under Sectio 103 of the Companies Act, 2013.

(Managing Director

Date: _______.08.2024 ROTOGRAPHICS (INDIA) LIMITED CIN: L74899DL1976PLC008036

Regd. Off.: Unit No 8, Ground Floor, Pocket M, Sarita Vihar, New Delhi 110076
Telephone: 011-47366600 E-mail: info@rotionida.co.in Website: www.rotoindia.co.in

Extract of Statement of Standalone Ur-audited Financial Result
For The Quarter Ended 30th June, 2024

(Unaudited (Refer Notes Below) 1. Total Income from Operation Net Profit/(Loss) for the perio (before Tax, Exceptional and/or Extra Ordinary items* 0.97 -6.83Net Profit/(Loss) for the period before tax(after Exceptional and/or Extra Ordinary items*
Net Profit/(Loss) for the period after tax(after Exceptional and/or Extraordinary items) -4.120.97 -6.83 -3.36 0.97 -6.07for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)] Equity Share Capital 0.97 -6.05 360.1 Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year.

The above results were reviewed by the Audit Commmittee and reviewed by the Board of Directors in their meeting held on 14th August, 2024. These financial results have been prepared in accordance with recognition and measurement principles laid down in the Indian Accounting Standards 34 Interim Financial Reporting (Ind AS-34) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereunder and other accounting principles generally accepted in India.

The Statutory Auditors have carried out a Limited Review of the unaudited standalone Financial Results for the quarter ended 30th June, 2024. The company is principally engaged in Single Business segment Viz. Trading, there is no other reportable segment in terms of Ind AS-108 'Operating Segments'.

Previous period figures have been regrouped/ reclassified wherever necessary, to conform to this period's classification.

For ROTOGRAPHICS (INDIA) LIMITED

Designation : Whole Time Director

DIN: 10426839

नाबालिग की 22 वीं मंजिल से गिरकर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

दर्पण डैश बोर्ड में प्रदेश के सभी कमिश्नरी

में प्रथम स्थान मिला है। वहीं सभी जन पदों

की बात की जाए तो किमश्नरी नोएडा की

रैंकिंग पांचवी है। मख्यमंत्री दर्पण डैश बोर्ड

से शासन स्तर से पुलिस के कामों की

निपटारा करने, गैंगस्टर एक्ट के तहत

माफियाओं के विरूद्ध कार्रवाई करने और

विभिन्न प्रकार के सत्यापन के लिए त्वरित

कार्रवाई के कारण किमश्नरी नोएडा को

अच्छी रैकिंग मिली है। मुख्यमंत्री दर्पण डैश

बोर्ड में पुलिस विभाग के विभिन्न शाखाओं

व इकाइयों का 48 बिन्दुओं पर आकलन

किया जाता है। इन बिन्दुओं के ऋम में

कमिश्नरेट नोएडा को 30 बिन्दुओं पर, व.+

रैंकिंग प्राप्त हुई है। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी

सिंह मुख्यमंत्री दर्पण डैश बोर्ड में बेहतरीन

काम करने वाले पुलिस अधिकारियों व

कर्मचारियों को सम्मानित करेंगी। पुलिस

कमिश्नर लक्ष्मी सिंह का कहना है कि

कमिश्नरेट पुलिस आम लोगों की सुरक्षा को

लेकर बेहतर काम कर रही है।

कमिश्नरी नोएडा को पुराने केस के

समीक्षा की जाती है।

नोएडा। थाना सूरजपुर क्षेत्र में स्थित एक सोसाइटी में रहने वाले नोएडा के एक थाना प्रभारी की 17 वर्षीय बेटी की सोसाइटी के 22 वीं मंजिल से गिरकर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मृतका 11वीं कक्षा की छात्रा थी। पुलिस इसे आत्महत्या और हादसा दोनों एंगल से देख रही है।

थाना सूरजपुर के प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र में स्थित एस प्लेटटिनम सोसाइटी के 22 वीं मंजिल पर रहने वाली छात्रा गार्गी 22वीं मंजिल से संदिग्ध परिस्थितियों में नीचे गिर गई। आसपास के लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी।

जांच के दौरान पुलिस को पता चला है कि मृतका प्रभारी निरीक्षक की बेटी है। उनका परिवार सोसाइटी मे काफी दिनो से रह रहा था। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किशोरी ने आत्महत्या किया है। उन्होंने बताया 🕅 कि अगर इस मामले में कोई शिकायत की जाती है तो पुलिस घटना की जांच करेगी।

कब्जा सुचना (अचल संपत्ति हेत्)

सम्मान कैपिटल लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) (पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्टक्शन ऑफ फायनांशियल असेटस एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **पायल गुप्ता (सह-उधारकर्ता पत्नी तथा** स्वर्गीय अतुल कुमार गुप्ता की कानूनी उत्तराधिकारी), अनंत गुप्ता (पुत्र तथा स्वर्गीय अतुल कुमार गुप्ता के कानूनी उत्तराधिकारी) और श्रष्टि गुप्ता उर्फ श्रीष्टि गुप्ता (पुत्री तथा स्वर्गीय अतुल कुमार गुप्ता की कानूनी उत्तराधिकारी) को 21.05.2024 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. HHLMAT00244000 की राशि रू. 33.05.080.19 (रूपये तैंतीस लाख पाँच हजार अस्सी और उन्नीस पैसे मात्र) और 13.05.2024 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी। धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतदद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को

सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 13.08.2024 को संपत्ति पर सांकेतिक आधिपत्य कर लिया है ।

विशेषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू. 33,05,080.19 (रूपये तैंतीस लाख पाँच हजार अस्सी और उन्नीस पैसे मात्र) 13.05.2024 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ सम्मान कैपिटल लिमिटेड (पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

प्लॉट नं. 141-एफ पर स्थित संपत्ति, पूर्व से पश्चिम 30 फीट, उत्तर से दक्षिण 70 फीट, कुल क्षेत्रफल 233.33 स्क्वे. यार्डस जो 195.08 स्क्वे. मीटर्स के बराबर, मौजा गोविंद नगर में स्थित, सेक्टर-एफ, लिटिल स्टार पब्लिक स्कूल के पास, मथुरा - 281001, उत्तर प्रदेश और जो सीमा निम्नानुसार परिबध्द है:-

पूर्व : प्लॉटनं. 142 एफ उत्तर : 40 फीट चौडी सडक

स्थान : मथुरा

पश्चिम : प्लॉट नं. 140 एफ दक्षिण : नजुल की जमीन

स्थान : मथुरा

(पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

प्राधिकृत अधिकारी सम्मान कैपिटल लिमिटेड

प्ररूप संख्या युआरसी-2

अध्याय XXI के भाग 1 के तहत पंजीकरण के संबंध में सूचना का विज्ञापन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 374 (ख) और कंपनी (रजिस्ट्रीकरण के लिए प्राधिकृत) नियम, 2014 के नियम 4 (1) के अनुसरण में

इसके द्वारा सचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 366 की उप–धारा (2) के अनुसरण में कंपनी रजिस्ट्रार केंद्रीय पंजीकरण केंद्र को एक आवेदन किया जाना प्रस्तावित है। वैक्सफार्म लाइफ साइसेज एलएलपी एक व्यावसायिक यूनिट है जिसे कंपनी अधिनियम–2013 के अध्याय XXI के भाग—। के तहत शेयरों द्वारा सीमित एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है।

कंपनी के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं "लाईफ साईस एंड बॉयोटेक्नॉली के क्षेत्र में अनुसंघान और विकास, विनिर्माण, प्रशिक्षण और शिक्षा" के क्षेत्र में व्यवसाय को आगे

प्रस्तावित कंपनी के ड्राफ्ट मेमोरेंडम और पार्क चितरंजन पार्क, नई दिल्ली–110019 में

इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि इस आवेदन पर आपत्ति करने वाला कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रार, केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी). इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स (आईआईसीए), प्लॉट नं. 6, 7, 8, सेक्टर 5, आईएमटी मानेसर, जिला गुड़गांव (हरियाणा) —122050 को लिखित रूप में अपनी आपत्ति बता सकता है, इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिनों के भीतर, एक प्रति वैक्सफार्म लाइफ साइंसेज एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय में भेज दें। आवेदक का नामः

गौतम घोष, डीआईएनः 02208631 अनुराग गुपा, जीआईएन 08375824 उत्सव घोष, जीआईएन 08375825 दिनांकः 14.08.2024

🕸 Karnataka Bank Ltd. 🕮

फॉट नं. 8-बी, प्रयम तल राजेंद्र पार्क, पुसा रोड

फोनः 011-40591567 फैक्सः 011-40591567 विसाइटः www.karnatakabank.com सीआईएन: L85110KA1924PLC001128

any good or bad acts.

बावजूद राशि का भुगतान नहीं किया है। इसेलिए, कृपमा ध्यान दें कि यदि मृतचन/ब्यान और अन्य शुल्कों का मगतान 22-08-2024 को या उससे फाले नहीं किया जाता है, तो गिरवी रखी गई संपत्ति को बैंक वे जिल्ली और विनिधानों के अधीन दिनांक 23-08-2024 की आगरा शाला में सबार 11 बजे बैंक एरिसर मे

सार्वजनिक रूप से नीलाम किया जाएगा। बैंक बिना किसी पूर्व सुचना और कारण बताए नीलामी को किसी अन्य सुविधाननक तारीख तक रद्द/स्थियत करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। गोला लोन खाता नं. और दिनांक 0307002000078601 149225.42 व्यक्तिष भारद्वाज 25-05-2023

राजेन्द्र फोस, दिल्ही आदेश द्वार दिनोक: 15.08.2024,

सिक्योरिटाईजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002

г	अनु.		(अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना					
	जनु. क्र.	कर्जदाता (ओं) का नाम (ए)	गिरवी संपत्ति(यों) का विवरण (बी)	एन.पी.ए की तारीख (सी)	बकाया राशि (रू.) (डी)			
	1.	कर्ज खाता क्र. HLLAMAT00359810 1. राधे श्याम अप्रवाल पेडे वाले (इसके भागीदार के माध्यम से) 2. ब्रज बिहारी अप्रवाल 3. प्रीति अप्रवाल 4. बांके बिहारी अप्रवाल 5. चंद्रप्रकाश राधेश्याम अप्रवाल 6. कमलेश अप्रवाल 7. कविता बांकेबिहारी अप्रवाल 8. राधारानी राधेश्याम अप्रवाल 9. राधे श्याम अप्रवाल	कमर्शियल प्रोपर्टी वाटर रेट नंबर 426 (पुरानी) और 355 (नई) पर प्लॉट नंबर 361 पर स्थित है, पुरोहित पाडा, बिहारीजी मंदिर के पास, वृंदावन मथुरा- 281121, उत्तर प्रदेश	04.07.2024	रु. 1,27,01,774.99/- (रुपए एक करोड़ सत्ताईस लाख एक हजार सात सौ चौहत्तर और निन्यानवे पैसे मात्र) 31.07.2024 के अनुसार			

कि ऊपर लिखे नाम वाला उधार लेने वाला(ले) ने ऋण खाते के वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं तथा कंपनी द्वारा अपनी आम बिजनेस चर्या में रखे जाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक उधार पाने वाले (लों) के नाम के आगे स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट धनराशि बकाया बनी हुई है । उधार लेने वाले(लों) की ओर से ऋण धनराशि का पुनर्भगतान में लगातार चुक होने के कारण उधार लेने वाले(लों) के ऋण खाते को कंपनी द्वार सीमांकित मापदंडो के भीतर निष्पादनेतर परिसंपत्तियों (स्तंभ सी में तारीख के अनुसार) के रूप में वगीकृत किया गया है। परिणामस्वरूप प्रत्येक उधार लेने वाले को अधिनियमन की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचनाएं भी जारी की गई है।

उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए कंपनी एतदद्वारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लों) का आहवान करती है कि , वे इस सूचना के प्रकाशित होने के दिन से 60 दिन के भीतर अद्यतन ब्याज, लागतें, तथा शुल्कों सहित ऊपर स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देयताओं का भुगतान करके कंपनी के प्रति बनने वाले अपने / उनके पूर्ण दायित्वों का निर्वहन करें. ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ बी में उल्लिखित बंधक रखी गई संपत्ति को अधिग्रहीत

कृपया ध्यान दें कि सरफेसी कानून की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार, ''कर्जदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित करते हुए, सार्वजनिक निविदा या निजी समझौते द्वारा सुरक्षित आस्तियों की बिक्री के लिए सूबना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्योर्ड क्रेडिटर द्वारा किए गए सभी खर्चों, लागतों और प्रभारों के साथ संपूर्ण बकाया देय राशि अदा कर सकता है, इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्धारित समयावधि के अंदर सरक्षित आस्ति का मोचन करने में कर्जदार विफल रहने पर कर्जदार संपत्ति का मोचन करने के लिए पात्र नहीं हो सकता''। सरफेसी अधिनियमन की उपधारा 13(2) के प्रावधान के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिक्री, पट्टे के माध्यम से अन्यथा नोटिस में उल्लिखित अपनी स्ररक्षित संपत्तियों में से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित करने से

इंडियाबुल्स कमर्शियल क्रेडिट लिमिटेड प्राधिकृत अधिकारी

सीएमवाईके प्रिंटेक लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक शोबोरी गाँगुली द्वारा 100के, मिलाप भवन, 8/ए, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002, दूरभाष: 011-40110455 से प्रकाशित तथा द इंडियन एक्सप्रेस लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक शोबोरी गाँगुली द्वारा 100के, मिलाप भवन, 8/ए, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002, दूरभाष: 011-40110455 से प्रकाशित तथा द इंडियन एक्सप्रेस लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक शोबोरी गाँगुली द्वारा 100के, मिलाप भवन, 8/ए, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002, दूरभाष: 011-40110455 से प्रकाशित तथा द इंडियन एक्सप्रेस लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक शोबोरी गाँगुली द्वारा 100के, मिलाप भवन, 8/ए, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002, दूरभाष: 011-40110455 से प्रकाशित तथा द इंडियन एक्सप्रेस लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक शोबोरी गाँगुली द्वारा 100के, मिलाप भवन, 8/ए, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002, दूरभाष: 011-40110455 से प्रकाशित तथा द इंडियन एक्सप्रेस लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक शोबोरी गाँगुली द्वारा 100के, मिलाप भवन, 8/ए, बहादुर शाह ज़िंदिन तथा है है के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक शोबोरी गाँगुली द्वारा 100के, मिलाप भवन, 8/ए, बहादुर शाह ज़िंदिन तथा है है के प्रकाशक शोबोरी गाँगुली द्वारा 100के, मिलाप भवन है के प्रकाशक शोबोरी गाँगुली द्वारा 100के, मिलाप भवन है कि एक स्वार 100के, विकास 100के, मिलाप 100के, विकास 100के, मिलाप 100के, विकास 100के, मिलाप 100के, विकास 10 संपादक : शोबोरी गाँगुली, स्थानीय सम्पादक: प्रदीप तिवारी। पाठकों को सुझाव दिया जाता है कि इस अखबार के किसी भी विज्ञापनदाता द्वारा उनके किसी उत्पाद तथा सेवा हेत किए गए किसी दावे की सच्चाई का आश्वासन या उत्तरदायित्व नहीं लेता है। ऐसे विज्ञापनों के बाद किसी आर्थिक क्षित के लिए वे जिम्मेदार भी नहीं हैं। मुख्य व्यवसायिक कार्यालय- 201-205 208-210, द्वितीय मंजिल, प्रताप भवन, 5, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002, दूरभाष:011-69342500।